



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 263]

No. 263]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 4, 1978/भाद्र 13, 1900

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 4, 1978/BHADRA 13, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएँ

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1978

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां. कां. निं. 443 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 117/78—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मई, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु ऐसा मोटर यान या ट्रैक्टर, जिसमें कृषि ट्रैक्टर भी सम्मिलित है, पहले उपयोग में न लाया गया हो।”

[सं. 162/78/कां. 144/1/77-सी. एक्स. 4/78-सी ई]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 4th September, -1978

CENTRAL EXCISES

GSR. 444(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry 592 GI/78

of Finance (Department of Revenue) No. 117/78-Central Excises, dated the 1st May, 1978, namely:—

In the said notification, for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that such motor vehicle or tractor, including agricultural tractor, has not been used previously.”

[No. 162/78/F. No. 144/1/77-C.X. 4.]

सां. कां. निं. 444 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं. 29 के अन्तर्गत आने वाले अन्तर्दहन इंजन को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देती है.

परन्तु यह तब जब—

(i) वह उक्त अनुसूची की मद सं. 34 के अन्तर्गत आने वाले मोटर यान, या ट्रैक्टर, जिसमें कृषि ट्रैक्टर भी सम्मिलित है, के विनिर्माण में उपयोग के लिए आशयित हो;

(ii) ऐसा मोटर यान या ट्रैक्टर पहले उपयोग में न लाया गया हो; और

(iii) ऐसे अन्तर्दहन इंजन की दशा में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में उपवर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया हो।

[सं. 163/78-सी ई/कां. सं. 144/1/77-सी. ए. 4]  
एन. बी. राघवप्रसाद, उप-सचिव

**G.S.R. 443(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts Internal Combustion Engine, falling under Item No. 29 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon :

Provided that—

- (i) it is intended for use in the manufacture of a motor vehicle, or a tractor, including agricultural tractor, falling under item No. 34 of the said Schedule ;

- (ii) such motor vehicle or tractor has not been used previously ; and

- (iii) in the case of such Internal Combustion Engine the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944 is followed.

[No. 163/78-C.E./F. No. 144/1/77-CX.4]

N. V. RAGHAVAN IYER, Deputy Secy.